

अमरोहा में भी बिकता हुआ पकड़ा गया नकली पेंट



Publish Date: Thu, 11 Feb 2021 11:49 PM (IST) Author: **Jagran**

अमरोहा नौगावां सादात के बाद अमरोहा भी प्रसिद्ध कंपनी के नाम पर बेचा जा रहा नकली पेंट पकड़ा गया है।

अमरोहा: नौगावां सादात के बाद अमरोहा भी प्रसिद्ध कंपनी के नाम पर बेचा जा रहा नकली पेंट पकड़ा गया है। कंपनी की टीम ने स्थानीय पुलिस को साथ लेकर एक गोदाम पर छापा मारा। वहां से रंग से भरी व खाली बाल्टी बरामद की हैं। साथ ही रेपर भी मिले हैं। कंपनी के अधिकारियों रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी है।

रविवार को रंग बनाने वाली देश की एक नामचीन कंपनी के अधिकारियों की सूचना पर नौगावां सादात पुलिस ने कस्बे में छह दुकानों पर छापा मार कर भारी मात्रा में नकली पेंट पकड़ा था। यह पेंट कंपनी के नाम पर बेचा जा रहा था। नकली पेंट की बाल्टी पर कंपनी का लोगो लगाकर दुकानदार मोटा मुनाफा कमा रहे थे। इस मामले में गुरुवार अमरोहा में भी कार्रवाई की गई।

कंपनी के अधिकारी विजय कुमार ने स्थानीय पुलिस को सूचना देकर बिजनौर रोड स्थित एक गोदाम पर उनकी कंपनी के नाम से नकली पेंट बेचे जाने की बात बताई थी। लिहाजा प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह ने पुलिस टीम को कंपनी के अधिकारियों के साथ भेजकर गोदाम पर छापा मारा। वहां नकली पेंट से भरी छह तथा 54 खाली बाल्टी तथा कंपनी के रेपर बरामद हुए। यहां पर भी नकली पेंट को कंपनी के नाम पर बेचा जा रहा था। कंपनी के प्रतिनिधि ने बरामद माल की कीमत लगभग दो लाख रुपये से अधिक बताई है। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी जा रही है।

प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि तहरीर मिलते ही आरोपित फर्म के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/amroha-city-fake-paint-caught-selling-in-amroha-too-21359988.html>